



# HAMIRPUR POLICE



**::पैदल गस्त/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों व मास्क न लगाने वालों,आवारा टाइप एवं स्टंट करके गाड़ी चलाने वाले लड़को के विरुद्ध चलाया गया चेकिंग अभियान::**

दिनांक 28-09-2020 को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल के साथ बैरियर,पैट्रोल पम्प,अंतर्जनपदीय बॉर्डर, ग्राम एवं कस्बों में पैदल गस्त किया गया इस दौरान, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों एवं आवारा टाइप एवं स्टंट करके गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की व जनमानस को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया साथ ही चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुल 96 व्यक्ति बिना मास्क लगाए पाये गये। उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 19,500/- रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया एवं जनमानस को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया एवं स्थानीय दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान वितरण करने व स्वयं भी मास्क धारण करने को कहा गया साथ ही यातायात नियमों के उलंघन में 71 वाहनों का ई-चालान किया गया।





# HAMIRPUR POLICE



## ::एंटीरोमियों चेकिंग/जागरूकता अभियान::

आज दिनांक 29/09/2020 को जनपद हमीरपुर के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों के आस-पास में एंटीरोमियों चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की गयी साथ ही एंटीरोमियो टीमों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव/कस्बे एवं सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं/छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/112 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाइन 1090 यूपी कॉप/पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया साथ ही महिलाओं को उच्चाधिकारियों के मोबाईल नंबर से अवगत कराया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया।





# HAMIRPUR POLICE



## ::बैंक चेकिंग::

आज दिनांक 29/09/2020 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम मे आने वालो को COVID-19 संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की गई व क्रमबद्ध लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया साथ ही बैंक के अंदर-बाहर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की गई एवं सुरक्षा हेतु लगे हुए सीसीटीवी कैमरों/अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया एवं बैंक में लगे एमरजेंसी अलार्म को चलवाकर चेक किया गया व डियूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा के संबंध में ब्रीफ भी किया गया।

